



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 21, 2001/आषाढ़ 30, 1923

No. 14]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 21, 2001/ASADHA 30, 1923

इस भाग में धिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन
के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2001

का. नि. आ. 111.—केन्द्रीय सरकार, नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण विनियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 2001 है।

(2) ये 15 अगस्त, 2001 को प्रवृत्त होंगे।

2. नौसेना समारोह, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण विनियम, 1963 में,—

(i) विनियम 52 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“52. फ्लैग अफसर—फ्लैग अफसर निम्नलिखित झण्डे लगाएंगे :—

(1) एडमिरल आफ दि फ्लीट—एक श्वेत झण्डा, जिसके किनारे नेवी ब्लू रंग के होंगे और जो तीन उर्ध्वाधर खंडों में विभाजित होगा, और दो खंडों के मध्य में दंड के साथ भारतीय नौसेना क्रेस्ट (स्कॉल रहित) अध्यारोपित होगा और झंडे के दंड से परे बाहरी खंड में फ्लैग अफसर/एडमिरल आफ दि फ्लीट का रैंक दर्शाते हुए, नेवी ब्लू रंग के पांच स्टार दो उर्ध्वाधर स्तंभों में क्रमवार अध्यारोपित होंगे, जिनमें एक स्टार मध्य में होगा।

(2) एडमिरल—एक श्वेत झण्डा, जिसके किनारे नेवी ब्लू रंग के होंगे और जो तीन उर्ध्वाधर खंडों में विभाजित होगा और दो खंडों के मध्य में दंड के साथ भारतीय नौसेना क्रेस्ट (स्कॉल रहित) अध्यारोपित होगा और झंडे के दंड से परे बाहरी खंड में फ्लैग अफसर/एडमिरल का रैंक दर्शाते हुए, नेवी ब्लू रंग के चार स्टार, दो उर्ध्वाधर स्तंभों में क्रमवार अध्यारोपित होंगे।

(3) वायस एडमिरल—एक श्वेत झण्डा, जिसके किनारे नेवी ब्लू रंग के होंगे और जो तीन उर्ध्वाधर खंडों में विभाजित होगा और दो खंडों के मध्य में दंड के साथ भारतीय नौसेना क्रेस्ट (स्कॉल रहित) अध्यारोपित होगा और झंडे के दंड से परे बाहरी खंड में फ्लैग अफसर/वायस एडमिरल का रैंक दर्शाते हुए, नेवी ब्लू रंग के तीन स्टार, एक उर्ध्वाधर स्तंभ में क्रमवार अध्यारोपित होंगे।

(4) रियर एडमिरल—एक श्वेत झण्डा, जिसके किनारे नेवी ब्लू रंग के होंगे और जो तीन उर्ध्वाधर खंडों में विभाजित होगा और दो खंडों के मध्य में दंड के साथ भारतीय नौसेना क्रेस्ट (स्कॉल रहित) अध्यारोपित होगा और झंडे के दंड से परे बाहरी खंड में फ्लैग अफसर/रियर एडमिरल का रैंक दर्शाते हुए, नेवी ब्लू रंग के दो स्टार, एक उर्ध्वाधर स्तंभ में क्रमवार अध्यारोपित होंगे।”

(2) विनियम 53 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“53. नौकाओं पर पेंट—फ्लैग अफसरों के बाजों के अग्रभागों पर सुभिन्न झण्डे पेंट किए जा सकेंगे झंडों का आकार, जब उन्हें पेंट किया जाए, कम से कम 30 सें.मी. × 15 सें.मी. होगा।”

(3) विनियम 54 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“54. कमोडोर—कमोडोर रैंक के अफसर नेवी ब्लू किनारे वाले श्वेत चौड़ी पताका लगाएंगे, जिसके, झण्डों के दंड के साथ लगे आधे भाग पर भारतीय नौसेना क्रेस्ट (स्कॉल रहित) अध्यारोपित होगा और जिसके झंडे के दंड से परे बाहरी खंड में नेवी ब्लू रंग का एक स्टार अध्यारोपित होगा।

(4) विनियम 55 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“55. कार पर झण्डे/गनों पर झण्डे लगाना—

(1) नौसेना अध्यक्ष, भारतीय नौसेना पोतध्वज को कार झण्डे के रूप में लगाएगा।

(2) सभी फ्लैग अफसर, जिनमें कमोडोर रैंक के अधिकारी भी सम्मिलित हैं, अपने-अपने सुभिन्न-झण्डों और पताकाओं को कार झण्डे के रूप में लगा सकेंगे। नौसेना अध्यक्ष, यथा अपेक्षित अधिकारिता के क्षेत्र और नियुक्ति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक विस्तारण अनुदेश जारी कर सकेगा।

(3) स्वतंत्र रूप से अवस्थित प्रतिष्ठापनों के कमांडिंग अफसर के रूप में कैप्टन रैंक के अफसर, उनकी कमान के अधीन आने वाले क्षेत्रों या ठीक साथ लगे क्षेत्रों के भीतर प्लेस अफसर की पताका, कार झण्डे के रूप में लगा सकेंगे। यह प्लेस अफसर पताका नेवी ब्लू किनारों वाली एक त्रिकोनी श्वेत पताका होगी, जिस पर झण्डे के दंड के साथ भारतीय नौसेना क्रेस्ट (स्कॉल रहित) अध्यारोपित होगा। नौसेना अध्यक्ष ऐसे कार झण्डे लगाने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारियों के संबंध में आवश्यक अनुदेश जारी कर सकेगा।

(4) यानों पर प्रदर्शित झण्डे 30 सें.मी. × 15 से.मी. के होंगे।”

(5) विनियम 56 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“56. कॉनवाय कमोडोर का झण्डा—कॉनवाय कमोडोर एक नेवी ब्लू किनारे वाली वैसी ही श्वेत चौड़ी पताका लगाएगा जिसमें झण्डे के दंड से लगे हुए आधे भाग पर भारतीय नौसेना क्रेस्ट (स्कॉल रहित) अध्यारोपित होगा और नेवी ब्लू रंग का एक स्टार होगा जैसा उसके झण्डे में विनियम 54 में यथा वर्णित दंड से दूर विस्थापित खण्ड में अध्यारोपित है।

(6) विनियम 66 के उपविनियम (1) में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(क) सफेद पोत ध्वज—झण्डे के दंड से लगे हुए ऊपरी चौथाई भाग पर अध्यारोपित राष्ट्रीय ध्वज वाला श्वेत रंग का पोत ध्वज और झण्डे के दंड से दूर विस्थापित भाग पर अध्यारोपित एक भारतीय नौसेना क्रेस्ट (स्कॉल रहित) श्वेत पोत ध्वज विनियम 70 में विहित रीति में प्रदर्शित किया जाएगा।

(7) विनियम 67 के उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“67 मस्तूल शिखर पताका—कमीशन में सभी भारतीय नौसेना पोत, जब वे किसी कार्यपालक अधिकारी के कमान में हों और जब उनके ऊपर कोई झण्डा या कोई चौड़ी पताका न लगी हो तो मस्तूल से लगे हुए भाग में भारतीय नौसेना क्रेस्ट (स्कॉल रहित) सहित फलाई की ओर सुण्डाकार होती हुई पताका जैसा एक श्वेत रिबन मुख्य मस्तूल के शिखर पर फहराया जाएगा।”

(2) विनियम 68 में,

(क) उप विनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(4) भारतीय नौसेना पोतों की नौकाओं पर राष्ट्रपति की उपस्थिति को दर्शाने के लिए राष्ट्रीय झण्डे को लगाया जाएगा।”

(ख) उप विनियम (5) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) लगभग 24 से.मी. व्यास की एक लाल रंग की डिस्क।”

(ii) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) लगभग 24 से.मी. व्यास की एक श्वेत रंग की डिस्क।”

(iii) खंड (ग) का लोप किया जाएगा।

(ग) उप विनियम (6) में,—

(i) खंड (ख) का लोप किया जाएगा।

(ii) खंड (ग) को खंड (ख) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

[फा. सं. 5/1/2000-डीएस (एस)]

रणजीत इस्सर, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल विनियम का.नि.आ. 22(अ) 19 फरवरी, 1964 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 10th July, 2001

S.R.O. 111.—In exercise of the powers conferred by section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous Regulations, 1963, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous (Amendment) Regulations, 2001.

(2) They shall come into force with effect from 15th August, 2001.

2. In the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous Regulations, 1963,—

(1) For regulation 52, the following regulation shall be substituted, namely :

“52. Flag Officers.—The following flags shall be worn by Flag Officers :—

(1) Admiral of the Fleet—A white flag with a navy blue border divided into three vertical sections with the Indian Naval Crest (without scroll) super imposed in the middle of the two sections next to the staff, and five stars of navy blue colour disposed in two vertical columns, including a star in the centre super imposed in the outer section displaced away from the flag staff, denoting the rank of the Flag Officer/Admiral of the Fleet.

(2) Admiral—A white flag with a navy blue border divided into three vertical sections with the Indian Naval Crest (without scroll) super imposed in the middle of the two sections next to the staff, and four stars of navy blue colour disposed in two vertical columns, super imposed in the outer section displaced away from the flag staff, denoting the rank of the Flag Officer/Admiral.

(3) Vice Admiral—A white flag with a navy blue border divided into three vertical sections with the Indian Naval Crest (without scroll) super imposed in the middle of the two sections next to the staff, and three stars of navy blue colour disposed in a vertical columns, super imposed in the outer section displaced away from the flag staff, denoting the rank of the Flag Officer/Vice Admiral.

(4) Rear Admiral—A white flag with a navy blue border divided into three vertical sections with the Indian Naval Crest (without scroll) super imposed in the middle of the two sections next to the staff, and two stars of navy blue colour disposed in a vertical column, super imposed in the outer section displaced away from the flag staff, denoting the rank of the Flag Officer/Rear Admiral.”

(2) For regulation 53, the following regulation shall be substituted, namely :—

“53. Painted On Boats.—The distinguishing flags may be painted on the bows of the barges of the Flag Officers. The size of flags when painted shall be atleast 30cms × 15cms.”

(3) For regulation 54, the following regulation shall be substituted, namely :—

“54. Commodore.—A white Broad Pendant with a navy blue border, with the Indian Naval Crest (without scroll) super imposed on the half adjoining the flag staff, and one star in navy blue colour super imposed in the section displaced away from the flag staff shall be worn by the officers of the rank of Commodore.”

(4) For regulation, 55 the following regulation shall be substituted, namely :—

“55. Car Flags/Display on Vehicles.—

(1) The Indian Naval Ensign shall be worn by Chief of the Naval Staff as his car flag.

(2) All flag officers including officers of the rank of Commodore may fly their respective distinguishing flags and pendant as their car flag. The chief of the Naval Staff may issue necessary amplifying instructions keeping in view the area of jurisdiction and appointment as required.

(3) Officers of the rank of Captain as Commanding Officers of establishments independently located shall fly the Senior Officers' pendant as their car flag within the areas or in the immediate vicinity of the areas under their command. This Senior officers Pendant will be a white triangular Pendant with navy blue border with Indian Naval Crest (without scroll) super imposed adjoining the flag staff. The Chief of the Naval Staff may issue necessary instructions regarding authorities authorised to fly such car flag.

(4) The flags displayed on vehicles shall be of size 30 cms × 15 cms.”

(5) For regulation 56, the following regulation shall be substituted, namely :—

“56. Convoy Commodore's Flag.—The Convoy Commodore shall wear the same White Broad Pendant with a navy blue border, with the Indian Naval Crest (without scroll) super imposed on the half adjoining the flag staff, and one star in navy blue colour super imposed in the section displaced away from staff as described in regulation 54 as his flag.”

(6) In sub-regulation (1) of regulation 66, for clause (a), the following shall be substituted, namely :—

“(a) White Ensign.—An Ensign of white colour with the National Flag super imposed on the top quarter adjoining the flag staff, and a Indian Naval Crest (without scroll) super imposed on the part displayed away from the flag staff. The White Ensign shall be displayed in the manner prescribed in regulation 70.”

(7) For sub-regulation (1) of regulation 67, the following sub-regulations shall be substituted, namely :—

“67. Masthead Pendant.—(1) All Indian Naval Ships in commission when commanded by an executive officer, and when not wearing a flag or a broad pendant, shall fly at the main masthead a white ribbon like pendant tapering towards the fly, with the Indian Naval Crest (without scroll) super imposed in the part adjoining the mast.”

(8) In regulations 68 :—

(a) for sub-regulation (4), the following shall be substituted, namely :—

“(4) The National Flag shall be displayed from the boats of Indian Naval Ships to denote the presence of the President.”

(b) in sub-regulation (5),—

(i) for clause (a), the following shall be substituted, namely :—

“(a) A Red Disc of approximately 24 cms in diameter.”

(ii) for clause (b), the following shall be substituted, namely :—

“(b) A White Disc of approximately 24 cms in diameter.”

(iii) clause (c) shall be omitted.

(c) in sub-regulation (6),—

(i) clause (b) shall be omitted.

(ii) clause (c) shall be renumbered as clause (b).

[F. No. 5(1)/2000-DS(S)]
RANJIT ISSAR, Jr. Secy.

Note.—The Principal regulation was published in the Gazette of India vide S.R.O. 22(E) dated 19 Feb. 1964.

नई दिल्ली, 21 मई, 2001

का. नि. आ. 112.—राष्ट्रपति, सावधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नौसेना (समूह “ग” अनौद्योगिक पद मोटर परिवहन कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 1987 को, जहां तक उनका संबंध परिवहन फोरमैन, प्रधान मोटर परिवहन पर्यवेक्षक, मोटर परिवहन पर्यवेक्षक, मोटर परिवहन ड्राइवर श्रेणी-I और श्रेणी-II और सवार हरकारा के पद से है, अधिक्रांत करते हुए रक्षा मंत्रालय, नौसेना में परिवहन फोरमैन के समूह “ख” (अनुसूचिवीय, अनौद्योगिक) पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नौसेना समूह “ख” (अनुसूचिवीय, अनौद्योगिक—परिवहन फोरमैन) भर्ती नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

लागू होना—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद/पदों को लागू होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उसका/उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान ये होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 5 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : यह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े प्रवर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन सह ज्येष्ठता अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
परिवहन फोरमैन	12* (2001)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह “ख” अराजपत्रित, *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	5500-175- 9000 रु.	चयन-सह-ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जायेगा

11	12
----	----

प्रोन्नति

प्रोन्नति :—ऐसा मोटर परिवहन पर्यवेक्षक, जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण :—प्रोन्नति के बारे में विचार किए जाने के लिए पात्र होने के लिए विभागीय परीक्षण में अर्हता प्राप्त करना आवश्यक है। जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13	14
----	----

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) :

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1. कैप्टन की पंक्ति का अधिकारी,
भारतीय नौसेना या समतुल्य या ऊपर की पंक्ति का सिविलियन अधिकारी।
—अध्यक्ष
2. कमांडर की पंक्ति से निम्न पंक्ति का अधिकारी
या समतुल्य पंक्ति का सिविलियन अधिकारी।
—सदस्य
3. लेफ्टिनेंट कमांडर की पंक्ति के दो अधिकारी
या समतुल्य या ऊपर की पंक्ति के सिविलियन अधिकारी
(एक विभागीय और दूसरा केन्द्रीय सरकार के विभाग से जो अधि-
मानतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग का हो)।
—सदस्य

[सी पी (एन जी)/2808/एफ एम (टीपीटी)/ग्रुप "बी"/भर्ती नियम]

फकीर चन्द, उप सचिव

New Delhi, the 21st May, 2001

S.R.O. 112.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Navy Group 'C' (Non-Industrial Post) Recruitment Rules, 1987, in so far as they relate to the posts of Foreman of Transport, Head Motor Transport Supervisor, Motor Transport Supervisor, Motor Transport Driver Grade-I,

& II and Despatch Rider the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' (Non-Ministerial, Non-Industrial) post of Foreman of Transport in the Navy, Ministry of Defence, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Navy Group 'B' (Non-Ministerial, Non-Gazetted-Foreman of Transport) Recruitment Rules, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. Number of Posts, Classification and Scales of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 5 of the said Schedule.

4. Method of Recruitment, age limit, other qualifications, etc.—The method of Recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 6 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, the other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection by Merit or Selection cum-Seniority or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service Pension Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	7
Foreman of Transport. (2001)	*12	General Central Service Group 'B'	Rs. 5500-175-9000.	Selection-cum-seniority	Not applicable	Not applicable
*Subject to variation dependent on workload.		Non-Gazetted, Non-Ministerial				
Educational and other qualification required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	Method of Recruitment whether by Direct Recruitment or by Promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	
8	9	10	11			
Not applicable	Not applicable	Two years	Promotion			

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Promotion : Motor Transport Supervisor with three years regular service in the grade. Note : Qualifying a Departmental Test is necessary to become eligible for consideration for promotion. Note : Where junior who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) :— <ol style="list-style-type: none"> 1. Officer of the rank of Captain, Indian Navy or Civilian Officer of equivalent rank or above—Chairman 2. One Officer not below the rank of Commander or Civilian Officer of equivalent rank—Member. 3. Two Officers of the rank of Lieutenant Commander or Civilian Officers of equivalent rank or above (one departmental and one from another Central Government Department preferably belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes category)—Members. 	Consultaion with Union Public Service Commission not necessary.

[CP (NG)/2808/FM(TPT)/Gp 'B'/RRs]

FAQUIR CHAND, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 27 जून, 2001

का. नि. आ. 113.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सैनिक फार्म (समूह "ग" सिविलियन पद) भर्ती नियम, 1978 को जहाँ तक उसका संबंध पर्यवेक्षक (फार्म), सहायक पर्यवेक्षक (फार्म) और सहायक पर्यवेक्षक (फार्म) पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, सैनिक फार्म विभाग में समूह "ग" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सैनिक फार्म (समूह "ग" सिविलियन) पद भर्ती नियम, 2001 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबीद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट/पदों को लागू होंगे।
3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और घेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके घेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरर्हता.**—यह व्यक्ति—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

4. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
1. पर्यवेक्षक (फार्म)	74* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह "ग" अराजपत्रित, अनुसचिवीय अनौद्योगिक	5000-150-8000 रु.	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच	नहीं
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं			परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9			10		
बी.एस. सी. (कृषि) वांछनीय : डेरी संबंधी फार्म और पशुप्रबंधन में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।	आयु—नहीं अर्हता—नहीं			सीधी भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नति व्यक्तियों के लिए परिबीक्षा अवधि, कुछ नहीं		
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता			प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा			
11	12					
(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति :— ऐसे सहायक पर्यवेक्षकों (फार्म) में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष सेवा की हो और जिन्होंने सैनिक फार्म इन्टरमीडिएट पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त की है।					
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना			भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परापर्श किया जाएगा			
13	14					
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित हों:—			लागू नहीं होता			
(क) उपमहानिदेशक सैनिक फार्म —अध्यक्ष						
(ख) निदेशक सैनिक फार्म और ओ०आई०सी०एस०एफ० रिकार्ड —सदस्य						

213741/2001-2

13

(ग) एक्यू एम जी क्यू (सी) क्यू एम जी का प्रतिनिधि—सदस्य

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों

से संबंधित एक अधिकारी—सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
2. सहायक पर्यवेक्षक (फार्म)	120* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह "ग" अराजपत्रित, अनुसूचिवीय अनौद्योगिक	4000-100-6000 रु.	अवयन	लागू नहीं होता	नहीं
8			9	10		
लागू नहीं होता।			आयु—नहीं अहंता—नहीं	लागू नहीं होता		

11

12

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति :—ऐसे उप सहायक (फार्म) में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष सेवा की हो और जिन्होंने सैनिक फार्म प्रारम्भिक पाठ्यक्रम में अहंता प्राप्त की है। प्रतिनियुक्ति अभ्यर्थियों के लिए समतुल्य पद या जिन्होंने किसी मान्यताप्राप्त सीनियर सेकेन्डरी स्कूल बोर्ड से जीव-विज्ञान और रसायन विज्ञान विषयों के साथ बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो और जिसको आठ वर्ष का अनुभव हो।

13

14

समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित हों :—

लागू नहीं होता

- (क) उपमहानिदेशक सैनिक फार्म —अध्यक्ष
 (ख) निदेशक सैनिक फार्म और ओआईसीएसएफ रिकार्ड —सदस्य
 (ग) एक्यूएमजीक्यू 1 (सी) (क्यूएमजी का प्रतिनिधि) —सदस्य
 (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित एक अधिकारी —सदस्य
 सीधी भर्ती द्वारा

1	2	3	4	5	6	7
3. उपसहायक पर्यवेक्षक (फार्म)	138* (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रक्षा सेवाओं में सिविलियन समूह "ग" अराजपत्रित, अनुसूचिवीय अनौद्योगिक	3050-75-3950-80 4590 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच टिप्पण : (i) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों और कतिपय अन्य प्रवर्गों के लिए शिथिल की जा सकती है। (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए किसी अन्य आय की शिथिलता के साथ संवन्धी रूप से शिथिल की जा सकती है	नहीं

8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त सेकेन्ड्री स्कूल परीक्षा बोर्ड से जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ बाहरवीं कक्षा उत्तीर्ण वांछनीय : 2 स्तर में व्यावसायिक विषयों के रूप में डेरी फार्म और कृषि	लागू नहीं होता।	दो वर्ष
11	12	
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	
13	14	
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित हों:— (क) उपमहानिदेशक सैनिक फार्म —अध्यक्ष (ख) निदेशक सैनिक फार्म और ओ०आई०सी०एस०एफ० रिकार्ड —सदस्य (ग) एक्यू एम जी क्यू (सी) क्यू एम जी का प्रतिनिधि—सदस्य (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित एक अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता	

[फा. सं 86072/क्यू/एम एफ 2/रक्षा 'ए' /384/आर आर/रक्षा(नि०)]

फकीर चन्द, उप सचिव

New Delhi, the 27th June, 2001

S. R. O. 113.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Military Farms (Group 'C' civilian posts) Recruitment Rules, 1978 in so far as they relate to the posts of Supervisor (Farms), Assistant Supervisor (Farms) and Sub Assistant Supervisor (Farms), the President is hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the Military Farms Department namely :—

(1) Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Military Farms (Group 'C' Civilian Posts) Recruitment Rules, 2001.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(2) Application.—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed to these rules.

(3) Number, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and scales of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the said schedule.

(4) Method of recruitment, age limit and qualification etc.—These method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be specified in column 5 to 14 of the schedule aforesaid.

(5) Disqualification—No person.

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living,

or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts.

2. Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of the rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations/relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of posts	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection posts or Non-selection Posts
1	2	3	4	5
1. Supervisor (Farms)	74* (2001)	Civilian in Defence services, Group "C" Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial	Rs. 5000-150-8000	Non-selection
2. Assistant Supervisor (Farms)	120 (2001)	Civilian in Defence services, Group "C" Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial	Rs. 4000-100-6000	Non-selection
3. Sub-Assistant Supervisor (Farms)	138 (2001)	Civilian in Defence services, Group "C" Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Not applicable
Age Limit for direct recruits.	Whether benefits of added years of service admissible under rule 30 of Central Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualification required for direct recruit	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any
6	7	8	9	10
1. Between 18 to 25 years	No	B.Sc. (Agr) Desirable one year practical experience in dairying & cattle management	Age : No Qualification : No	Two years for direct recruits No Probation period for promotees.
2. Not applicable	No	Not applicable	Age : No Qualification : No	Not applicable
3. Between 18 to 25 years* *Note (1) Relaxable for scheduled Castes/Scheduled Tribes Other Backward Classes & certain other categories as notified by the Central Government from time to time. (2) Relaxable cumulatively with any other age relaxation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes	No	12th Standard Pass from any recognized Board of Senior Secondary School examination with Biology & Chemistry subjects. Desirable Dairying & Agriculture as vocational subjects in plus 2 stage	Not applicable	Two years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment whether by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13	14
1. 50% by promotion 50% by direct	Promotion : Promotion from amongst Assistant Supervisor (Farms) who have put in eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and who have qualified in Military Farms Intermediate Course.	Gp. "C" Departmental Promotion Committee Consisting of :— (a) Dy Director General Mil. Farms—Chairman (b) Director Military Farms: & OIC MF Records (c) AQMG Q I (C) (QMG's rep) : Member (d) One Officer belonging to SC/ST/OBC	Not applicable
2. By promotion failing which by deputation	Promotion :— Promotion from amongst sub Asstt Supervisor (Farms) who have put in eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and who have qualified in Military Farm Elementary Course. For deputationists Candidates in equivalent posts or having Passed 12 standard from any recognised Board of Senior Secondary School examination with Biology & Chemistry subjects and with eight years Experience.		Not applicable
3. By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	Not applicable

[File No. 86072/Q/MF-2/Raksha 'A'/384/RR/D (Appts)]

FAQUIR CHAND, Dy. Secy.

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 27 जून, 2001

का. नि. आ. 114.— भारत के राजपत्र भाग II, खंड 4, तारीख 02 दिसम्बर 1995 के पृष्ठ 362-365 पर रक्षा मंत्रालय, भारतीय नौसेना ज्येष्ठ अनुवाद अधिकारी : (रूसी/अंग्रेजी) भर्ती नियम 1995 की अनुसूची में जो अधिसूचना सं. का. नि. आ. 230, तारीख 31-10-1995 के अधीन प्रकाशित किया गया था, स्तंभ 10 में "सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष और प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष", शब्दों और अंकों के स्थान पर "एक वर्ष" पढ़ें।

[फाइल सं. सी पी (जी)/ 1431]

फकीर चंद, उप सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th June, 2001

S.R.O 114.—In the Schedule appended to the Ministry of Defence, Indian Navy Senior Translation Officer (Russian/English) Recruitments Rules 1995, published vide Notification No. SRO 230 dated 31 Oct. 1995, at pages 365 to 367 in the Gazette of India, Part II, section 4, dated the 02 December, 1995, in column 10 for “01 year for direct recruits and 02 years for promotees,” read “one year”.

[File No. CP(G)/1431]

FAQUIR CHAND, Dy. Secy.

CORRIGENDUM

New Delhi, the 2nd July, 2001

S.R.O 115.—Following amendment is made to SRO No. 63 dated 21-3-2001 published in the Gazette of India, Part II Section 4 dated 14 April, 2001 :—

In line 5

for the word

"LUCKNOW"

Read

"BABINA"

[No. 19/16/Babina/C/DE/2001/2990/D(Q&C)]

D. R. MEHRA, Under Secy.